

**SAMHI Hotels Ltd.**

CIN:  
L55101DL2010PLC211816  
Regd. Office: Caspia Hotels  
Delhi, District Centre Crossing,  
Opp. Galaxy Toyota Outer Ring  
Road, Outer Ring Rd., Haider  
Pur, Shalimar Bagh, Delhi-  
110088.

01<sup>st</sup> June 2025

**BSE Limited**  
**Corporate Relationship Department**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,  
Mumbai - 400 001, Maharashtra, India

**National Stock Exchange of India**  
**Limited**

Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra  
Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai -  
400 051, Maharashtra, India

**Scrip Code: 543984**

**Scrip Code: SAMHI**

**Sub: Disclosure pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time ('SEBI LODR Regulations')**

Dear Sir / Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI LODR Regulations, please find enclosed a copy of the newspaper advertisement(s) publishing the Audited Financial Results for the quarter and financial year ended 31<sup>st</sup> March 2025 (*approved at the meeting of the Board of Directors of the Company held on Thursday, 29<sup>th</sup> May 2025*) published in the following newspapers:

1. Jansatta on Saturday, 31<sup>st</sup> May 2025; and
2. Financial Express on Saturday, 31<sup>st</sup> May 2025

You are hereby requested to take the above information on record.

Thanking You.

Yours faithfully,

**For SAMHI Hotels Limited**

**Sanjay Jain**  
**Senior Director- Corporate Affairs,**  
**Company Secretary and Compliance Officer**

**Encl.: As above**



KUDGI TRANSMISSION LIMITED						
Regd. Office: 4th Floor, Tower B, Commerzone IT Park, Mount Poonamallee Road, Porur Chennai - 600 116. T: +91 (44) 4223 8700   E: ktl@energy-sel.com   W: www.kudgitransmission.com   CIN : U40106TN2012PLC111122						
AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025						
(₹. in Lakhs)						
Sr. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended	
		March 31, 2025 (Audited)	December 31, 2024 (Unaudited)	March 31, 2024 (Audited)	March 31, 2025 (Audited)	March 31, 2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	6,453	4,678	4,540	20,211	18,858
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	4,507	2,022	1,830	10,421	8,286
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	4,507	2,022	1,830	10,421	8,286
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,579	2,022	1,830	10,493	8,286
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4,574	2,023	1,829	10,488	8,286
6	Paid up Equity Share Capital	19,260	19,260	19,260	19,260	19,260
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	20,018	15,444	21,717	20,018	21,717
8	Networth	39,278	34,704	40,977	39,278	40,977
9	Paid-up Debt Capital (including interest accrued thereon)	1,35,876	1,32,942	1,40,696	1,35,876	1,40,696
10	Debt Equity Ratio	3.46 : 1	3.83:1	3.43:1	3.46 : 1	3.43 : 1
11	Earnings Per Share (of face value ₹ 10 each):					
	1. Basic (₹) (* not annualised)	*2.27:1	*1.05:1	*0.95:1	4.3 : 1	5.45 : 1
	2. Diluted (₹) (* not annualised)	*2.27:1	*1.05:1	*0.95:1	4.3 : 1	5.45 : 1
12	Debt Redemption Reserve	13,330	13,330	13,330	13,330	13,330
13	Debt Service Coverage Ratio (refer note f)	NA	NA	NA	1.37 : 1	1.27 : 1
14	Interest Service Coverage Ratio (refer note f)	2.54 : 1	1.68:1	1.59:1	1.89 : 1	1.68 : 1
Debt Equity Ratio = Debt/Equity, Debt Service Coverage Ratio = Earnings before Interest, Depreciation and Tax / (Interest expense + Principal Repayment), Interest Service Coverage Ratio = Earnings before Interest, Depreciation and Tax/ Interest Expense."						
<b>Notes:</b>						
(a) The above is an extract of the detailed format of quarterly / annual financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the LODR Regulations. The full format of the quarter / annual financial results are available on the website of the Stock Exchange(s) and the listed entity.						
(b) For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges(s) BSE and can be accessed on the URL https://kudgitransmission.com						
(c) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 30, 2025.						
(d) There were no exceptional items.						
(e) In terms of clause 52(7A) of the listing agreement, we hereby confirm that there is no material deviation in the use of proceeds of debt securities from the objects specified in the offer document.						
(f) Debt servicing is only in the month of April in each financial year, Hence, debt service coverage ratio for the quarter ended March 31, 2024, December 31, 2024, and March 31, 2025 are not considered and accordingly have been computed only for year ended. Debt servicing for the financial year 2024-25 and 2025-26 had been made in the month of April 24, 2024 and April 24, 2025.The Interest Service Coverage ratio are based on the result for the period ended March 31, 2024, December 31, 2024 and March 31, 2025.The aggregate of accumulated cash and cash equivalents and investments as on March 31, 2024, December 31, 2024 and March 31, 2025 is ₹ 62,658 Lakhs, ₹ 43,209 Lakhs and ₹ 50,759 respectively. (including bank deposits having original maturity more than 3 months)						
(g) The Company's Non-Convertible Debentures have been rated AAA (Stable) by both ICRA Limited and CRISIL.						
(h) On 10th April 2024, L&T IDPL(Erstwhile holding company) has completed the sale of its entire equity stake in the Company to IYP II and its Affiliate(s). Consequently the Company has ceases to be subsidiary company of L&T IDPL w.e.f 11th April 2024 and is now a subsidiary of IYP II, IYP IIA and IYP IIL.						
(i) The board of directors has recommended final dividend of ₹ 6500 Lakhs (₹ 3.37 per equity share of face value of Rs.10 each) to equity share holders.						
<b>For and on behalf of the Board of Directors, Kudgi Transmission Limited</b>						
<b>Ojes Madappattu</b> Whole-time Director DIN: 10813704						
Place: Mumbai Date: May 30, 2025						

# IL&FS INVESTMENT MANAGERS LIMITED

CIN: L65999MH1986PLC147981

Registered Office: The IL&FS Financial Centre, C-22, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051

Website: www.iimlindia.com, Tel: 022 2653 3333, Fax: 022 2653 3056, Email: investor.relations@ilfsindia.com

## EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	Quarter Ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2024 (Restated - Refer Note 4)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)	Year Ended 31.03.2024 (Restated - Refer Note 4)
Total Income from Operations (net)	310.76	370.74	2,640.15	904.78	3,202.03
Net Profit/(Loss) for the year (before tax and Exceptional items)	100.91	154.15	2,455.25	(156.37)	2,255.23
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	100.91	154.15	2,455.25	(156.37)	2,255.23
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	65.16	141.23	2,434.29	(217.71)	2,250.92
Total Comprehensive Income/(Loss) for the period	58.28	142.81	2,439.01	(211.64)	2,254.85
Equity Share Capital	6,280.85	6,280.85	6,280.85	6,280.85	6,280.85
Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	2,774.28	2,715.99	5,184.14	2,774.28	5,184.14
Earnings Per Share (Face Value of ₹ 2/- each)					
Basic and Diluted	0.02	0.05	0.78	(0.07)	0.72
Other Equity	2,774.28	2,715.99	5,184.14	2,774.28	5,184.14

**Note:**

(1) The aforesaid Standalone financial results of IL&FS Investment Managers Limited for the quarter and year ended March 31, 2025 along with comparative period have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on May 29, 2025 and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on May 29, 2025 in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

(2) The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") as per the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 (CA 2013) and other relevant provisions of the CA 2013 as amended from time to time.

(3) As per requirements of Indian Accounting Standard (Ind AS) 108 on "Operating Segments", based on evaluation of financial information for allocation of resources and assessing performance, the Group has identified a single segment i.e., providing asset management services and other related services. As such, there are no separate reportable business or geographical segments as per Ind AS 108.

(4) The National Company Law Tribunal, Mumbai has passed an Order dated July 26, 2024 approving the Scheme of Amalgamation ("the Scheme") of its two wholly owned subsidiaries IL&FS Asian Infrastructure Managers Limited ("IAML") and IIML Asset Advisors Limited ("IAAL") with the Company, with appointed date as April 1, 2022. Upon completion of the formalities on August 23, 2024 the Scheme has become effective from the Appointed Date i.e., April 1, 2022. Consequently, the above-mentioned wholly owned subsidiaries of the Company stand dissolved without winding up.

Since the amalgamated entities are under common control, the accounting of the said amalgamation been done applying Pooling of Interest method as prescribed in Appendix C of Ind AS 103 "Business Combinations". While applying Pooling of Interest method, the Company has recorded all assets, liabilities and reserves attributable to the wholly owned subsidiaries at their carrying values as appearing in the consolidated financial statements of the Company. Consequently, the previous year/ periods figures have been restated considering that the amalgamation has taken place from the beginning of the preceding period i.e. April 1, 2022 as required under Appendix C of Ind AS 103.

The financial statements of the amalgamated entities for the year ended March 31, 2024 have been audited on a standalone basis

(5) The term of most of the existing funds being managed/advised by the Group has already been over. Other funds being managed/advised by the Group are approaching end of their term in near future which has resulted/is likely to result in significant reduction in the Group's fee revenue. Management expects that its future income from existing funds being managed/advised together with liquid assets held by the Group as at March 31, 2025 will be adequately sufficient to meet the Group's existing and future obligations arising over the next 12 months. Management believes that use of the going concern assumption for preparation of these financial results is appropriate.

The IL&FS Board has been working on a resolution plan, with a view to enable value preservation for stakeholders of IL&FS Group. The resolution plan, inter alia, involves sale of assets/businesses/companies owned by IL&FS. In this regard, the IL&FS Board has on December 21, 2023 invited a public Expression of Interest (EOI) for sale of its entire stake in the Company. In response to the EOI, few prospective bidders have shown interest and the process is underway.

(6) The Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India, has vide its letter dated October 1, 2018 initiated investigation by Serious Fraud Investigation Office (SFIO) against Infrastructure Leasing & Financial Services Limited (IL&FS), the Holding Company and its subsidiaries (including the Company) under Section 212(1) of the Companies Act, 2013. On December 3, 2018, MCA on the directions of the National Company Law Tribunal, Mumbai (NCLT) has impleaded various Group Companies of IL&FS (which includes the Company) as Respondents to the Petition filed by them on October 1, 2018. The Company has received the "Summary of Charges" sent by the Ministry of Corporate Affairs through IL&FS, based on which the required action has been completed.

(7) During the financial year ended March 31, 2025, the Company has recorded a significant decline in Income from Operations primarily due to the completion or impending completion of tenure of most of the funds managed or advised by the Company, resulting in lower management and advisory fees. Further, the Other Income decreased by approximately ₹ 2,216.65 lakh mainly attributable to the non-receipt of dividend income from its subsidiaries.

(8) The above is an extract of the detailed format of year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites at http://www.nseindia.com/ and http://www.bseindia.com/. The same are also available on the Company website at http://www.iimlindia.com/financials.aspx.

(9) The Board of Directors, in their meeting held on May 29, 2025, have proposed a final dividend of ₹ 0.28 per equity share amounting to ₹ 879.29 lakhs for FY 2024-25. As the profits for the year are inadequate, the dividend will be paid out of accumulated free reserves in accordance with Section 123(1) of the Companies Act 2013 and Rule 3 of the Companies (Declaration and Payment of Dividend) Rules 2014. The proposal is subject to the approval of shareholders at the Annual General Meeting.

(10) The figures for the three months ended March 31, 2025 are the balancing figures between the audited figures with respect to full financial year and the published unaudited year to date figures up to the third quarter of the financial year which were subjected to limited review.

(11) One of the subsidiary of the company namely Andhra Pradesh Urban Infrastructure Asset Management Limited (APUIAML) has not provided Audited Results. Hence, the Consolidated Accounts of the Group could not be adopted. The Company has already made an application to SEBI seeking an extension of 60 days for submission of consolidated financial results.

(12) Previous year numbers are regrouped/reclassified wherever necessary.

**For the Order of the Board**  
Sd/-  
Chitranjan Singh Kahlon  
Chairman

Mumbai, May 29, 2025

# IMP POWERS LIMITED

CIN: L31300DN1961PLC000232

Regd. Office: CH 7, Inspire Business Park, Shantigram Near Vaishnodevi Circle, Ahmedabad, Gujarat, India, 382421. Tel. No.: +91-79-2655 4100

Website: www.imp-powers.com | Email ID: info@imp-powers.com

## Audited Financial results for the Quarter & Financial Year ended March 31, 2025

In Compliance with Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Board of Directors of IMP Powers Limited ("Company") at their meeting held on **Friday, 30<sup>th</sup> May, 2025** approved the Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the Quarter and Financial Year ended **31<sup>st</sup> March 2025** ("Results").

The results alongwith the Auditors Report (Standalone & Consolidated) issued by Statutory Auditor of the Company are available at <http://www.imp-powers.com/investors.php> and on website of the Stock Exchanges. i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively.

In compliance with Regulation 47 of the Listing Regulations, we hereby notify that the same can also be accessed by scanning the following Quick Response (QR) code:

**For IMP Powers Limited**  
Sd/-  
**Shaishav Shah**  
Director  
DIN: 00019293

Date: 30/05/2025  
Place: Ahmedabad

Regd. Office: 33, Brabourne Road, 8th Floor, Kolkata - 700001, WB

CIN: L46691WB1983PLC035758; Mail: apolloinvestmentsltd@gmail.com, Website: www.apolloinvestmentsltd.in

(Rs in lakhs except EPS)

## EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025

SL. NO.	PARTICULARS	Standalone			Consolidated		
		Quarter Ended 31-03-25 (Audited)	Year Ended 31-03-25 (Audited)	Year Ended 31-03-24 (Audited)	Quarter Ended 31-03-24 (Audited)	Quarter Ended 31-03-25 (Audited)	Year Ended 31-03-24 (Audited)
1.	Total income from operations (net)	30.25	137.66	645.18	69.55	30.25	137.66
2.	Net Profit/ (Loss) for the quarter/year (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	22.38	109.16	550.20	(14.93)	22.38	109.16
3.	Net Profit/(Loss) for the quarter/year before tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	22.38	109.16	550.20	(14.93)	22.38	109.16
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	5.82	92.60	415.27	(132.10)	5.82	92.60
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	26.15	11.35	333.14	(113.77)	13.03	10.48
6.	Equity Share Capital	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-
	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	2.43	38.58	173.03	(55.04)	(3.04)	38.22
	Diluted:	2.43	38.58	173.03	(55.04)	(3.04)	38.22

**NOTES:**

(a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity i.e www.apolloinvestmentsltd.in

(b) The above Financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on May 30, 2025.

**For more details scan the QR Code**

For and on behalf of Board of Directors  
Sd/-  
**Pradeep Kumar Singhania**  
Managing Director  
DIN: 00377607

Place: Kolkata  
Date: 30-05-2025

Regd. Office: Flat Nos. 306 & 307, 1-8-271 to Ashoka Bhogpal Chambers, S.P. Road, Secunderabad, 500003, Telangana

Corp. Office: Plot No. 84, 3rd Floor, Institutional Area, Sector-32, Gurugram-122001, Haryana

Tel.: + 91 124 2384090-94, E-mail: secretarial@tcipress.in, Website: www.tcipress.in

## Statement of Audited Financial Results for the Quarter/Year ended March 31, 2025

(Rs. in Crores except as stated otherwise)

Sr. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Mar 31, 2025	Dec 31, 2024	Mar 31, 2024	Mar 31, 2025	Dec 31, 2024	Mar 31, 2024
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations (net)	313.05	298.89	319.04	1221.14	1260.97	313.41
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items and/or Extraordinary items)	27.31	27.41	41.51	120.14	173.97	26.00
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	27.31	27.41	41.51	120.14	173.97	26.00
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional items and/or Extraordinary items)	20.67	20.68	31.59	90.77	131.69	19.36
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	21.18	20.10	32.24	90.01	132.26	19.87
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs. 2)	7.68	7.68	7.67	7.68	7.67	7.68
7	Other Equity				761.85	696.38	
8	Earning per share -EPS (not annualized)-In Rs.						
	Basic Earning Per Share	5.38	5.39	8.24	23.66	34.36	5.05
	Diluted Earning Per Share	5.37	5.37	8.22	23.59	34.27	5.03

**Notes:-**

1. The above is an extract of the detailed format of Quarter ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Financial Results are available on the Stock Exchange Websites ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and on the Company's Website ([www.tcipress.in](http://www.tcipress.in)).

2. The Financial Results of the Company for the Quarter ended March 31, 2025 were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on May 30, 2025. The Statutory Auditors of the Company have carried out the Limited Review of the same.

3. The Board of Directors has recommended a Final Dividend for the year 2024-25 @ 100% (Rs 2.00 per share of face value of Rs 2.00 each), for the approval of shareholders at the ensuing Annual General Meeting. This is in addition to the interim dividends aggregating to 300% i.e Rs 6.00 per equity share of face value of Rs 2.00 each, declared during the financial year 2024-25.

Place: Gurugram  
Date: May 30, 2025

For TCI Express Limited  
Chander Agarwal  
(Managing Director)

# SAMHI Hotels Limited

CIN : L55101DL2010PLC211816

Registered Office : Caspia Hotels Delhi, District Centre Crossing, Opp. Galaxy Toyota Outer Ring Road, Haider Pur, Shalimar Bagh, Delhi-110088;

Website : www.samhi.co.in; Email : info@samhi.co.in; Telephone : +91 (124) 4910100

## EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2025

(INR in millions; except per equity share data)

Particulars	Quarter ended			Year ended		
	31 March 2025	31 December 2024	31 March 2024	31 March 2025	31 March 2024	31 March 2024
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total Income	3,236.00	2,987.18	2,898.78	11,496.79	9,787.26	9,787.26
EBITDA before exceptional items	1,262.92	1,132.28	961.64	4,256.87	2,878.51	2,878.51
Profit/(loss) before tax	225.61	224.21	105.87	606.64	(2,441.38)	(2,441.38)
Profit/(loss) for the period/year	458.66	227.85	112.93	855.00	(2,346.18)	(2,346.18)
Total comprehensive income/(loss) for the period/year	458.51	226.56	116.17	849.86	(2,341.53)	(2,341.53)
Paid up equity share capital (face value of INR 1 each, fully paid)	221.21	220.05	220.01	221.21	220.01	220.01
Other equity				11,199.33	10,165.39	10,165.39
Earnings/ (loss) per equity share (Face value of INR 1 each):						
Basic (INR) (not annualised for quarter)	2.08	1.04	0.52	3.88	-14.67	-14.67
Diluted (INR) (not annualised for quarter)	2.06	1.02	0.52	3.84	-14.67	-14.67

**Key numbers of Standalone Financial Results**

(INR in millions)

Particulars	Quarter ended			Year ended		
	31 March 2025	31 December 2024	31 March 2024	31 March 2025	31 March 2024	31 March 2024
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total Income	393.48	406.03	452.17	1,614.58	1,656.83	1,656.83
Profit/(loss) before tax	231.41	2.58	981.38	202.04	(801.01)	(801.01)
Profit/(loss) for the period/year	231.41	2.58	981.38	202.04	(801.01)	(801.01)

**Notes:**

1) The above is the extract of the detailed format of quarter and year ended 31 March 2025 Financial Results filed with the Stock Exchanges under the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The Statement of Consolidated and Standalone Financial Results as on quarter and year ended 31 March 2025 are available on the Bombay Stock Exchange website (URL: [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)), the National Stock Exchange website (URL: [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and on the Parent's website (URL: [www.samhi.co.in](http://www.samhi.co.in)).

2) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 29 May 2025.

3) The above results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time, and other accounting principles generally accepted in India and in compliance with Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations").

For and on behalf of Board of Directors of  
**SAMHI Hotels Limited**  
Sd/-  
**Ashish Jakhanwala**  
Chairman, Managing Director and CEO  
DIN: 03304345

Place: Gurugram  
Date: 29 May 2025



<div> <div>SBFC</div> <div> <p>पंजीकृत कार्यालय:- मुम्बई नंबर 103, प्रथम तह, सीटीडीएस एचवार, संजय कॉम्प्लेक्स, गांव चव्हाण, अंधेरी-मुम्बई 400, अंधेरी (ए), मुम्बई-400059।</p> <p>शाखा पता: ओ-7, प्रथम तह, लुक्सेर सेलूलर के उपर, लुक्सात नगर - II, जई दिल्ली - 110024</p> </div> </div>					
नीलामी सह चक्र विक्री के लिए सार्वजनिक सूचना					
<p>वित्तीय आसितयो के प्रतिनिधिकरण एव पुनर्निर्माण तथा प्रमृति हित प्रदान अभियोग, 2002 ("सरकारी अधिनियम") के अंतर्गत <b>एसबीएफसी फाईनंस लिमिटेड</b> (पूर्वतः <b>एसबीएफसी फाईनंस प्राइवेट लिमिटेड</b>) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित सूचिपत्र परिचयपत्र का कम्पा निवेदन के अनुसार, नीचे दिए गए आचार्य/आचार्यिकाओं के दो राशि की सूचिपत्र के लिए, जो सुविशुद्ध ऋणपत्रा के कम्पा निवेदन के, के कम्पा के लिए नीचे हस्ताक्षरितों द्वारा सीलबद्ध लिहक-में <b>"जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा जो है जैसा है जैसा है"</b> के आधार पर प्रस्ताव/ बोली आमंत्रित की जाती है, निम्नलिखित विवरण नीचे दिया गया है:-</p>					
आचार्य/आचार्यिका(ओं) का पता	मार्ग नोटिफिकेशन लिखित और डाक	अवलम्बित/परिचयपत्रों का विवरण	आरंभित मूल्य (आर.पी.)	बयाना ठाड़ा (आर.पी.)	कुल ऋण कम्पा (19 मई, 2025 तक)
<p><b>1. लिस्वान सिंह प्रोपर्टी लिमिटेड</b>, दुकान नंबर 310-01, सिटी स्ट्रीट, बंनाना स्टेशन मील, सेक्टर 19, फरीदाबाद, हरियाणा - 121002।</p> <p><b>2. रंजीत कुमार,</b></p> <p><b>3. बृज लाल,</b></p> <p><b>4. मंगल सार पंवार,</b></p> <p><b>5. रवींद्र चौध,</b> मकान नंबर 610, गली नंबर 8, बंसल नरिणो हौस के पास,</p> <p>आदर्श कॉलेजी, पलवल, हरियाणा-121102।</p> <p>और संपाधिकृत संपत्ति पता: लिस्वान प्रोपर्टी लिमिटेड, सेक्टर नंबर 3072, मुस्तालिफ नंबर 164, टीका नंबर 21/1, 6-8 (महाली नंबर 610), मुम्बई सीलबद्ध, पलवल तहसील, पलवल, फरीदाबाद, हरियाणा-121102</p>	<p><b>16/02/2021 / 48.27.21/-</b> (केवल अटलीसील सदावर्त हज्जर दो सी गायद फायदे)</p> <p><b>15 फरवरी 2021 तक, साथ ही 16 फरवरी 2021 की तिथि से अनुरक्त गायज</b></p>	<p>संपत्ति का पूरा टुकड़ा अवर्त संपत्ति/भूमि से 8.5 अरब, सेक्टर संख्या 3072, मुम्बई संख्या 164, टीका नंबर 21/1 (6-8), (लो. संख्या 610) में से जो बोली माला नगरपालिका सीमा पलवल (नई बरी सल्लादा), तहसील पलवल, फरीदाबाद, हरियाणा- 121102 में स्थित है।</p>	<p>रु. 81,26,217/- (एकपे इक्कासी लाख बीस चब्बसी हजार दो सौ सत्रह मात्र)</p>	<p>रु. 8,12,62,127/- (एकपे आठ लाख बारह हजार सात ह्वाकसी लाख चब्बसी हजार दो सौ सत्रह मात्र)</p>	<p>रु. 81,26,217/- (एकपे इक्कासी लाख चब्बसी हजार दो सौ सत्रह मात्र)</p>
<p>1. निर्याति निविदा/बोली प्रपत्र में सीलबद्ध बोली/प्रस्ताव जमा करने की अनिवार्य तिथि ईश्वरीय और केवाईसी (रू-सत्यापित) के साथ 20 जून 2025 को सुबह 11:00 बजे या उससे पहले फार उल्लिखित गृह/शाखा कार्यालय के पते पर है। जो निविदाएं/बोली नहीं मई है या अनिवार्य तिथि के बाद प्राप्त हुई हैं, उन्हें अनिवार्य माना जाएगा और तदनुसार उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। 2. ईश्वरीय राशि का भुगतान <b>"एसबीएफसी फाईनंस लिमिटेड"</b> के छेठ में मई दिल्ली में दया डिमांड ड्राफ्ट/बी ऑर्डर के माध्यम से किया जाना चाहिए, जो अफकल बोलीदाताओं को बयान के दिना वार्ता किया जाएगा। 3. संपत्ति के निवेशण की तिथि 13 मई 2025 को सुबह 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक के बीच है। 4. संपत्ति के लिए सील/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि 20 मई 2025 को उपर्युक्त शाखा कार्यालय के पते पर दोपहर 12:30 बजे है। निविदा/बोली सील बोलीदाताओं के साथ प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में खोली जाएगी। 5. संपत्ति से प्राप्त अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाता को बेची जाएगी। आपसी बोली प्राधिकृत अधिकारी के विक्रेत पर निर्भर करेगी। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा/बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या किसी को स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है। संपत्ति को अग्रिम सूचना से कम पर नहीं बेचा जाएगा। 6. नोटिफिकेशन में बयान राशि पर ऋण समझौते के अनुसार लाना गायज लिया जाएगा और आरम्भिक मूल्य, लागत और दायरे इस्वीय वसूली तक चलेगा। 7. नीलामी विक्री के विस्तृत निम्न और शर्त निविदा/निविदा फॉर्म में शामिल है। निविदा प्रारूप उपर्युक्त गृह/शाखा कार्यालय में उपलब्ध है। 8. कोई भी शुक्र, प्रारंभ कर जिसमें हस्ताक्षर, हस्ताक्षर/गृह, अवैतनिक बिलीनी शुक्र, नगरपालिका/स्थानीय कर, स्टैम्प शुक्र और पंजीकरण शुक्र शामिल है, लेकिन 11वीं तक सीमित नहीं है, केवल कुछ ही दायरे दान किया जाएगा। 9. विक्री कर, संपत्ति कर आदि सहित सभी शुक्र/बकाया/अवैतनिक कर या सुविशुद्ध संपत्ति पर कोई अन्य कर्षण, बैकालिक या अन्धकार दान द्वारा अनंत से अहम किया जाएगा। 10. सूचिपत्र लेनदार को ज्ञात मारुत मुद्रा। 11. सार्वत बोलीदाता नीली राशि का 25% (ईश्वरीय समायोजित करने के बाद) तुरंत जमा करेगा और शेष 75% राशि 15 दिनों के भीतर दान करेगी। निम्नी मूल्य का भुगतान करने में विफल रहने पर निम्नी सहित सील जमा राशि बिना किसी अतिरिक्त सूचना के जब्त कर दी जाएगी। तथापि, आसाधारण परिस्थितियों में शेष 75% भुगतान करने के लिए आप और अतिरिक्त समर का विस्तार प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण विक्रेत कर होगा। 12. प्राधिकृत आचार्य द्वारा दिए गए विवरण उपर्युक्त सूचिपत्र दान, विवरण और अनिवार्य के अनुसार ब्यापार पर है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी बुरि, दान बयान या बुरा आचर के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 13. बोली हस्ताक्षरणीय नहीं है। 14. बैकैंस चेक या डिमांड ड्राफ्ट रूमेस <b>एसबीएफसी फाईनंस लिमिटेड</b> के पक्ष में केवल नई दिल्ली में दान ब्यापार है। 15. ऋण/सि-ऋण को नीलामी की तिथि से पहले उपर्युक्त उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए एसआरएफसी प्रोपर्टी लिमिटेड अभियोग, 2002 के तहत 15 दिनों का वैतनिक विक्री नोटिफिकेशन दान है। अन्याय अनार संपत्ति की नीलामी की जाएगी और शेष राशि, यदि कोई हो, गायज और लागतों के साथ वसूली की जाएगी। यदि आचार्य/विक्री की तिथि से पहले <b>एसबीएफसी फाईनंस लिमिटेड</b> (पूर्वतः <b>एसबीएफसी फाईनंस प्राइवेट लिमिटेड</b>) को दान राशि का पूरा भुगतान नहीं होता है, तो नीलामी नहीं दी जाएगी। 16. आचार्य/ऋण-ऋण-ऋण (के विक्री) के समय गायजित रूप से उपर्युक्त राशि से निवेदित दिया जाता है और वे विक्री के नियमों और शर्तों के विवरण के अनुसार, ऊपर वर्णित अनुसार अग्रिम संपत्ति खरीदने के लिए इच्छुक खरीदार/खरीदारों को ज्ञात करेगा है।</p>					
<p><b>समय: नई दिल्ली, दिनांक: 31-05-2025</b></p>			<p><b>हस्ता/प्राधिकृत अधिकारी, मेसर्स एसबीएफसी फाईनंस लिमिटेड</b></p>		

**फॉर्म संख्या INC-26**  
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के  
नियम 30 के अनुसार]  
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का एक  
रजिस्ट्रार से दूसरे राज्य में बदलने के लिए  
विज्ञापन  
केन्द्र सरकार के समक्ष, क्षेत्रीय निदेशक,  
उत्तराखण्ड, नई दिल्ली  
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की  
उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम,  
2014 के नियम 30 के अनुसार नियम (5) के खंड  
(ए) के मातेले में  
और  
शिक मेक सिडिइयूएस प्रवाइडर लिमिटेड के  
मालिक में, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूटिफ नं  
बर 305, तुथिय नगर, वर्ल्डवर्क-2, एंसेट 8  
हॉस्पिटैलिटी इंडियन, एरोसिटी, पनपूर-8,  
आरुणाछाई एयरपोर्ट, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, नई  
दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110037 पर स्थित है।  
... आवेक  
आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी  
10.05.2025 के दिनांक पर प्रस्तावित अंतराधान आम  
बैठक में भारत विश्व निगम के अनुसार कंपनी के  
एक एडिक्शन के ज्ञान में परिवर्तन की पुष्टि  
के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13  
के तहत रजि. सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव  
करने के तहत। कंपनी आम पंजीकृत कार्यालय  
को "एरुणाछाई एयरपोर्ट शिक दिल्ली" से  
से "विमलदास राव" में ले जा रहा है।  
कंपनी की व्यक्ति लिफ्ट लिफ्ट कंपनी के पंजीकृत  
कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होकर  
की समझना है, वह निदेशक शिक्सा फॉर्म  
दाखिल करके एपसीए-21 फॉर्म  
([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) पर  
आप अपने दिनांक की प्रकृति और विवरण के आधार  
बताते हों एक हलफनामे के साथ आम  
अपराधी को पंजीकृत राज्य से क्षेत्रीय निदेशक  
उत्तराखण्ड को नोट नोटिस के प्रकाशन की  
तारीख से चौदह दिनों के भीतर भी 21 विंग,  
दक्षिण उत्तर, पश्चिम दीनय्यात अंत्योपस्थ  
भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -  
110003 के पते पर भेज सकते हैं (यह इसकी  
पुष्टि आवेक कंपनी को उनके पंजीकृत  
कार्यालय में भी भेजे उत्कृष्ट करने पर भेजनी होगी।  
शिक मेक सिडिइयूएस प्रवाइडर लिमिटेड  
पता: यूटिफ नं 305, तुथिय नगर  
वर्ल्डवर्क-2, एंसेट 8 हॉस्पिटैलिटी  
इंडियन, एरोसिटी, पनपूर-8,  
आरुणाछाई एयरपोर्ट, दक्षिण पश्चिम दिल्ली,  
नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110037  
शिक मेक सिडिइयूएस प्रवाइडर लिमिटेड की ओर से  
निर्गता नवरु  
दिनांक: 31.05.2025 (निगमन)  
स्थान: नई दिल्ली। आईडीएन: 10688800

<div>  </div>					
<div> <div>SAMHI</div> <div>SMART HOTEL INVESTMENTS</div> </div>					
<div> <div>SAMHI Hotels Limited</div> <div> CIN : L55101DL2010PLC211816  Registered Office : Caspia Hotels Delhi, District Centre Crossing, Opp. Galaxy Toyota Outer Ring Road, Haider Pur, Shalimar Bagh, Delhi-110085;  Website : www.samhi.co.in; Email : info@samhi.co.in; Telephone : +91 (124) 4910100 </div> </div>					
<div> <div>EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE</div> <div>QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2025</div> </div>					
(INR in millions, except per equity share data)					
Particulars	Quarter ended			Year ended	
	31 March 2025	31 December 2024	31 March 2024	31 March 2025	31 March 2024
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total Income	3,236.00	2,987.18	2,898.78	11,496.79	9,787.26
EBITDA before exceptional items	1,262.92	1,132.28	961.64	4,256.87	2,878.51
Profit/(loss) before tax	225.61	224.21	105.87	606.64	(2,441.38)
Profit/(loss) for the period/year	458.66	227.85	112.93	855.00	(2,346.18)
Total comprehensive income/(loss) for the period/year	458.51	226.56	116.17	849.86	(2,341.53)
Paid up equity share capital (face value of INR 1 each, fully paid)	221.21	220.05	220.01	221.21	220.01
Other equity				11,199.33	10,165.39
Earnings/ (loss) per equity share (Face value of INR 1 each):					
Basic (INR) (not annualised for quarter)	2.08	1.04	0.52	3.88	-14.67
Diluted (INR) (not annualised for quarter)	2.06	1.02	0.52	3.84	-14.67
Key numbers of Standalone Financial Results					
(INR in millions)					
Particulars	Quarter ended			Year ended	
	31 March 2025	31 December 2024	31 March 2024	31 March 2025	31 March 2024
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total Income	393.48	406.03	452.17	1,614.58	1,656.83
Profit/(loss) before tax	231.41	2.58	981.38	202.04	(801.01)
Profit/(loss) for the period/year	231.41	2.58	981.38	202.04	(801.01)
Notes:					
<p>1) The above is the extract of the detailed format of quarter and year ended 31 March 2025 Financial Results filed with the Stock Exchanges under the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The Statement of Consolidated and Standalone Financial Results as on quarter and year ended 31 March 2025 are available on the Bombay Stock Exchange website (URL: www.bseindia.com), the National Stock Exchange website (URL: www.nseindia.com) and on the Parent's website (URL: www.samhi.co.in).</p> <p>2) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 29 May 2025.</p> <p>3) The above results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time, and other accounting principles generally accepted in India and in compliance with Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations").</p>					
<div>  </div>			<div> <div>For and on behalf of Board of Directors of</div> <div>SAMHI Hotels Limited</div> <div>Sd/-</div> <div>Ashish Jakhanwala</div> <div>Chairman, Managing Director and CEO</div> <div>DIN: 03304345</div> </div>		
<div> <div>Place: Gurugram</div> <div>Date: 29 May 2025</div> </div>					

[illegible]


<p style="text-align: center;"><b>जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड</b>  पंजी. कार्यालय: 458-1/16, सोहना रोड, न्यू कोर्ट के सामने, गुरुग्राम - 122001, हरियाणा  फोन नं०. 0124-233867-70, वेबसाइट: <a href="http://www.jmaindia.com">www.jmaindia.com</a>; ईमेल आईडी: <a href="mailto:info@jmaindia.com">info@jmaindia.com</a> CIN: L35999HR1998PLC033943</p>											
<p style="text-align: center;"><b>31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैंडबलाइन और कंसोलिडेटेड अंकेषित वित्तीय परिणामों का उद्घरण</b></p>											
(रु. लाखों में)											
क्र. सं०	विवरण	स्टैंडबलाइन					कंसोलिडेटेड				
		समाप्त तिमाही 31.03.2025 (अंकेषित)	समाप्त तिमाही 31.12.2024 (अनंकेषित)	समाप्त तिमाही 31.03.2024 (अंकेषित)	समाप्त वर्ष 31.03.2025 (अंकेषित)	समाप्त वर्ष 31.03.2024 (अंकेषित)	समाप्त तिमाही 31.03.2025 (अंकेषित)	समाप्त तिमाही 31.12.2024 (अनंकेषित)	समाप्त तिमाही 31.03.2024 (अंकेषित)	समाप्त वर्ष 31.03.2025 (अंकेषित)	समाप्त वर्ष 31.03.2024 (अंकेषित)
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	12578.97	10955.88	12242.21	43917.60	42885.41	16125.05	14296.58	15443.32	56360.27	54049.46
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवादालम्बक और/या असाधारण मदों से पहले)	1004.49	698.50	980.80	2741.86	2763.98	1344.47	919.26	1259.67	3561.27	3487.53
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले, अपवादालम्बक और/या असाधारण मदों के बाद)	1004.49	698.50	980.80	2741.86	2763.98	1344.47	919.26	1259.67	3561.27	3487.53
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादालम्बक और/या असाधारण मदों के बाद)	741.67	518.48	748.32	2033.63	2089.05	1003.22	681.26	951.15	2620.82	2600.57
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय शामिल)	718.84	472.92	758.41	2028.08	2239.98	986.86	693.54	958.60	2621.30	2754.76
6	भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी (ब्रॉकेज रु 2/- का अंकित मूल्य)	456.82	456.82	456.82	456.82	456.82	456.82	456.82	456.82	456.82	456.82
7	रिजर्व (पिछले वर्ष की बैलेंस शीट में दिखाए गए पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)				20810.69	19239.44				24414.88	22296.89
8	प्रति शेयर आय (असाधारण मदों के बाद) (अंकित मूल्य प्रत्येक रु 2/-) (गैर वार्षिकीकृत) बैसिक एंड डायल्यूटेड	3.25	2.27	3.28	8.90	9.15	4.31	2.93	4.10	11.27	11.21

**नोट्स:**

- उपरोक्त परिणाम सेबी (सुविधान दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमवली, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के वित्तीय परिणामों के विवरण प्रारूप का उद्घरण है। इन परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट एनएसई [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट [www.jmaindia.com](http://www.jmaindia.com) पर उपलब्ध है।
- पिछली अवधि के आकड़ों को जहाँ भी आवश्यक हुआ पुनःसमूहित/पुनर्वर्गीकृत किए गया है।
- 28 मई, 2025 और 29 मई, 2025 को आयोजित बैठक में उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- सांख्यिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा की है और अपरिवर्तित राय के साथ एक रिपोर्ट जारी की है।
- निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन रु. 2/- प्रति इक्विटी शेयर पर रु. 2/- (100 प्रतिशत) अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से  
जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड  
हस्ता /-  
मुखि खरोडा  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
DIN: 00093201

स्थान: गुरुग्राम  
दिनांक: 29 मई, 2025

<b>SUPER TANNERY LIMITED</b> CIN No.: L1913UP1984PLC00621 Regd. Office: 187/170, Tajmau Road, Kanpur - 208 010 (U.P); Ph.: +91 7522000370, Fax: +91 512 2460792, Email: share@supertannery.com, Web: www.supertannery.com						
<b>EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS</b> <b>FOR THE QUARTER AND PERIOD ENDED 31ST MARCH, 2025</b>						
(Rs in lacs)						
Sl. No.	Particulars	<b>CONSOLIDATED</b>				
		Three Months ended 31.03.2025 (Audited)	Three Months ended 31.12.2024 (Unaudited)	Three Months ended 31.03.2024 (Audited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)
1.	Total Income	6,908.12	7,403.93	6,444.56	28,725.71	23,098.86
2.	Net Profit before Interest, depreciation, exceptional items and tax	616.84	1,895.44	2,217.73	2,278.73	1,982.82
3.	Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary items)	302.77	237.01	341.43	1,003.17	839.37
4.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	302.77	237.01	341.43	1,003.17	839.37
5.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary items)	304.54	171.33	217.11	666.72	585.12
6.	Total Comprehensive Income for the period	308.85	149.16	210.83	676.93	597.04
7.	Equity Share Capital (Face value of Re. 1/- per share)	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73	1,079.73
8.	Basic and Diluted Earnings Per Share (of Re. 1/-each) (Not Annualized *)					
i	Before Extraordinary Items (in Rs.)	0.28	0.16	0.20	0.62	0.54
ii	After Extraordinary Items (in Rs.)	0.28	0.16	0.20	0.62	0.54
<b>Notes:</b>						
1. The above is an extract of the detailed format of audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and year ended consolidated and standalone financial results are available on the Stock Exchange websites:- www.bseindia.com and on the Company's website www.supertannery.com						
2. Key Standalone Financial Information:						
Sl. No.	Particulars	<b>STANDALONE</b>				
		Three Months ended 31.03.2025 (Audited)	Three Months ended 31.12.2024 (Unaudited)	Three Months ended 31.03.2024 (Audited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)
1.	Total Income	6,798.88	7,478.49	6,369.83	28,614.20	22,902.91
2.	Net Profit before Interest, depreciation, exceptional items and tax	605.24	584.30	613.64	2,337.03	1,989.74
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary items)	288.94	231.63	263.95	1,064.89	857.11
Place: KANPUR Date: 29.05.2025				For and on Behalf of the Board Itikharul Amin Managing Director DIN No. 00037424		